



Chandan basak

05 Jul 1990

09:30 PM

Ramganj

Model: Health-Report

Order No: 121052501


তারিখ 05/07/1990 সময় 21:30:00 দিবস বৃহস্পতিবার স্থান Ramganj লাহিড়ী অয়নাংশ : 23:43:42
 অক্ষাংশ 26:19:00 উত্তর রেখাংশ 88:18:00 পূর্ব মধ্য রেখাংশ 82:30:00 পূর্ব স্থানীয় সংস্কার 00:23:12 ঘন্টা

পঞ্জিকা	অবকহড়া চক্র
সাম্পাতিক কাল _____: 16:46:44 ঘণ্টা	গণ _____: অরি
সময় _____: 00:04:27 ঘণ্টা	মোনি _____: মৃগ
সূর্যোদয় _____: 04:49:12 ঘণ্টা	নাড়ী _____: আদ্য
সূর্যাস্ত _____: 18:33:12 ঘণ্টা	বর্গ _____: বিপ্র
চৈত্র সম্বত _____: 2047	বশ্য _____: কীটক
সক _____: 1912	বর্গ _____: মৃগ
মাস _____: আষাঢ়	মুন্ড _____: অন্ত্য
পক্ষ _____: শুক্ল	হংসক _____: জল
তিথি _____: 13	নাম সারণি _____: বা-যতীন্দ্র
নক্ষত্র _____: জ্যেষ্ঠা	পয়া _____: তাম্র-তাম্র
যোগ _____: শুক্ল	হোরা _____: রবি
করণ _____: তৈতিলা	চোঘড়িয়া _____: রোগ

বিংশোত্তরী	যোগিনী
বুধ 9ব 0মা 28দি	ভদ্রিকা 2ব 8মা 1দি
শুক্র	ভদ্রিকা
02/08/2006	06/03/2024
02/08/2026	06/03/2029
শুক্র 02/12/2009	ভদ্রিকা 15/11/2024
রবি 02/12/2010	উলকা 15/09/2025
চন্দ্র 02/08/2012	সিদ্ধা 05/09/2026
মঙ্গল 02/10/2013	সঙ্কটা 16/10/2027
রাহু 02/10/2016	মঙ্গলা 06/12/2027
বৃহস্পতি 03/06/2019	পিঙ্গলা 16/03/2028
শনি 02/08/2022	খান্যা 16/08/2028
বুধ 02/06/2025	ভামরী 06/03/2029
কেতু 02/08/2026	

গ্রহ	ব	অ	ডিগ্রী	রাশি	নক্ষত্র	পদ	অধিপতি	অ.	স্থিতি	ঘটবল	চর	স্থির	গ্রহ তারা
লং			11:17:17	কুম্ভ	শতভিষা	2	রাহু	শনি	---	0:00			
রবি			19:38:35	মিথু	আর্দ্রা	4	রাহু	মং	সমরাশি	1.28	পুত্র	পিতৃ	বধ
চং			22:52:51	বৃশ্চ	জ্যেষ্ঠা	2	বুধ	চং	নীচস্থ	1.50	মাতৃ	মাতৃ	জন্ম
মং			01:31:48	মেঘ	অশ্বিনী	1	কেতু	শুক্র	মূলত্রিকোণ	1.56	কূলত্র	ভ্রাতৃ	সম্পত
বুধ	অ		23:11:47	মিথু	পুনর্বসু	1	বৃহ	শনি	স্বরাশি	0.85	ভ্রাতৃ	জ্ঞাতি	মিত্র
বৃহ	অ		26:36:59	মিথু	পুনর্বসু	2	বৃহ	শুক্র	শত্রুরাশি	1.15	অমাত্য	ধন	মিত্র
শুক্র			18:55:43	বৃষ	রোহিণী	3	চং	বুধ	স্বরাশি	1.50	জ্ঞাতি	কূলত্র	প্রত্যারি
শনি	ব		28:57:31	ধনু	উত্তরাষাঢ়া	1	রবি	মং	সমরাশি	1.17	আত্ম	আয়ুষ-	ক্ষেম
রাহু	ব		13:41:29	মক	শ্রবণা	2	চং	রাহু	মিত্ররাশি	---		জ্ঞান	প্রত্যারি
কেতু	ব		13:41:29	কর্ক	পূষ্যা	4	শনি	রাহু	মিত্ররাশি	---		মোক্ষ	অতিমিত্র


লগ্ন চলিত




চন্দ্র কুন্ডলী



নবাংশ কুন্ডলী



সর্বাষ্টকবর্গ



দশমাংশ কুন্ডলী



দৈহিক, ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাব

যে সব জাতক/জাতিকা কুম্ভরাশি যুক্ত তারা সাধারণত সুদর্শন এবং শান্ত স্বভাবের। আপনার লম্বা এবং খেলোয়াড় সুলভ চেহারা হবে, সুন্দর ও পরিষ্কার, উপবৃত্তাকার মুখমণ্ডল, মোটা ঠোঁট এবং দীর্ঘ বুকুর অধিকারী হবেন। যদি সোজাভাবে হাঁটাচলা না করেন তাহলে পরবর্তী জীবনে অল্প কুঁজো হয়ে যাবেন।

কুম্ভের জাতক/জাতিকা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন অতএব বেশী কাজ করা বা মানসিক ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয় বরং যথোচিত বিশ্রাম এবং ভারমুক্ত হতে অভ্যাস করতে হবে। হৃদরোগ এবং রক্তচাপের লক্ষণ পরিলক্ষিত। গলা, দাঁত, কান এবং বাতের যত্ননায় কষ্ট পেতে পারেন।


অতএব সামান্য পীড়াতে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত বিলম্বে জটিল হতে পারে। স্বভাবে আপনি লাজুক এবং ভীক কিন্তু প্রয়োজনে ষাঁড়ের মতো তেড়ে যাবেন। আপনি কেবল তার বন্ধুদের সামনেই কর্মক্ষমতা দেখাতে পারবেন। আপনি জ্ঞানী ও সাহিত্যিক মানসিকতা সম্পন্ন হবেন। যেহেতু বুদ্ধিমান, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং কারনগুলি যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন ফলে আপনি বিখ্যাত সাহিত্যিক বা শিক্ষক হতে পারেন। এছাড়াও অনুসন্ধানী মননের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগ থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আকর্ষণের জন্য সংসারে অতি অল্প সময় অতিবাহিত করবেন। এছাড়াও খুব আবেগপ্রবণ না হওয়ার ফলে স্বামীস্ত্রীতে সর্বদা কলহ হবে। এমনকি কলহ এরকম জায়গায় যেতে পারে যার জন্য আপনাকে সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। অতএব শান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে কাজ এবং সংসারের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনার।

রত্ন চয়ন

রত্ন জীবন মেং শুভত্ব কী বৃদ্ধি কে লিএ ধারণ কিএ জাতে হৈং। বৈজ্ঞানিক রূপ সে, রত্ন অপনে গৃহ কী রাশিযোং কো পর্ণমাত্রা মেং মানব শরীর মেং প্রবাহিত কর গৃহ প্রভাব কী বৃদ্ধি করতে হৈং। যही कारण है कि रत্ন केवल शुभ ग्रहोएं का ही धारण किया जाता है। गृह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रोएं की फति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नां में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत্ন चयन हेतु गृह की शुभता दशांते है।

नीचे जन्मकण्डली में ग्रहोएं की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही केटोन सा गृह किस त्त्रे में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नोएं की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस गृह को ९५ प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसको रत্ন हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिसे ५०-९५ प्रतिशत शुभता प्राप्त है उमें कार्य त्त्रे अनूसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत্ন केवल २५-५० प्रतिशत शुभता लिए है उनको रत্ন केवल उनकी या उनको मित्रोएं की दशा में धारण करने चाहिए। अस्तंतः जिसे २५ प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे गृह अपने लिए अशुभ ही समरों नर उनको रत्नोएं को पहनने से बचना चाहिए।

रत্ন	गृह	शुभता	क्षेत्र
हीरा	शुक्र	92%	सुख, भाग्योदय
पान्ना	बुध	84%	सन्तति सुख, दुर्घटना एड़ानो
पोखराज	बृह	77%	सन्तति सुख, धनार्जन, धन
नीला	शनि	77%	धनार्जन, कम खरच, स्वास्थ्य
प्रवाल	मंग	67%	परक्रम, व्यावसायिक उन्नति
माणिक्य	रवि	64%	सन्तति सुख, दम्पति
गोमेद	राह	44%	व्यय, हानि
बैदूर्यमनि	केतु	41%	शत्रु व रोग, व्यावसायिक हानि
मुञ्जा	चंग	6%	व्यावसायिक हानि, शत्रु व रोग



दशानुसार रत্ন विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मुञ्जा	प्रवाल	पान्ना	पोखराज	हीरा	नीला	गोमेद	बैदूर्यमनि
बुध	03/08/1999	70%	0%	67%	97%	77%	98%	77%	44%	41%
केतु	02/08/2006	52%	0%	74%	84%	77%	98%	64%	19%	58%
शुक्र	02/08/2026	52%	0%	67%	90%	77%	100%	83%	53%	52%
रवि	02/08/2032	77%	19%	74%	84%	83%	79%	64%	19%	16%
चंग	02/08/2042	70%	31%	67%	90%	77%	92%	77%	19%	16%
मंग	02/08/2049	70%	19%	80%	72%	83%	92%	77%	19%	52%
राह	03/08/2067	52%	0%	55%	84%	77%	98%	83%	59%	16%
बृह	03/08/2083	70%	19%	74%	72%	89%	79%	77%	44%	41%
शनि	03/08/2102	52%	0%	55%	90%	77%	98%	89%	53%	16%

লগ্ন ফল

আপনার জন্মের সময় কুন্ড লগ্ন মকর নবাংশ ও মিথুন দ্রেক্ষণা শংভিষার দ্বিতীয় পদে থাকায় নির্দেশিত যে আপনার আরাম দায়ক ও সুখের জীবন হবে।

আপনি পারিবারিক জীবন হতে সর্বাপেক্ষা সুখ পাবেন। আপনার উৎকৃষ্ট জীবনসার্থী হবে ও সন্তান আপনাকে বাধিত করবে। আপনি আপনার সংসারে শান্তি ও খুশী আনার জন্য সকলের মনোকামনা - পূরণের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করবেন।

আপনার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক অর্থ থাকবে ও আরামের জীবন হবে। আটাশ বছর বয়স বতে আপনি নিজ বৃত্তিতে ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পন্ন পদ পাবেন।

আপনার সততা নিজ উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে ও আপনি জি কাজ ধৈর্য্য সহকারে শেষ করবেন। আপনি কর্মঠ এবং আপনার শ্রিত্ব আপনাকে যে কোনও কাজে সফলতা প্রদান করে। আপনার স্পষ্ট কথার জন্য হোকে আপনাকে ভুল বুঝবে যেহেতু লোকে আপনার সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতা বুধতে পারবে না। প্রতিদ্বন্দিতা আপনাকে আক্রমণ করলে আপনি সমগ্র শক্তিতে প্রতিরোধ করবেন ও জয়ী হবেন।

সৃজনমূলক চিন্তাধারায় আপনি অগ্রণী হবেন। আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা থাকবে এবং তফাৎ করার ক্ষমতা আছে। যদি আপনি কোন কাজ ভাল মনে করেন তবেই আপনি তা করবেন যদি কোন কাজ নীতিগত ভাবে ঠিক থাককে আপনি কোনও অস্বাভাবিক কাজও করতে পিছপা হবেন না।

সাধারণ বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকবিজ্ঞান জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও বায়ু ভ্রমণ সংস্থা আপনার অনুকূল কাজ। সাধারণভাবে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কিন্তু আপনার গাঁটে ব্যাথা রকতচাপ ও হৃদয় সংক্রান্ত রোগ হতে পারে। আপনাকে যে কোনও দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ আপনার হাড় ভাঙ্গতে পারে যেটা বাদও দিতে হতে পারে।

বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার ও সোমবার আপনার জন্য অনুকূল বাকী তিন দিন আপনার জন্য শুভ নয়।

হলুদ, লাল, সাদা ও মাখন রঙ আপনার জন্য অনুকূল কমলা, সূজ ও নীল এড়িয়ে চলবে।

দুই, তিন, সাত, নয় আপনার উপযোগী। এক, চার, পাঁচ, আট এড়িয়ে চলুন।

রুদ্রাঙ্ক

রুদ্রাঙ্ককে শিবের চক্ষু বলা হয়ে থাকে। রুদ্রাঙ্ক দুই শব্দের মিলনে তৈরি, প্রথম রুদ্র এর অর্থ ভগবান শিব এবং দ্বিতীয় অঙ্কের অর্থ অশু। বিশ্বাস অনুযায়ী রুদ্রাঙ্ক ভগবান শিবের অশু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রুদ্রাঙ্ক ভগবান শিবের নেত্র থেকে প্রবাহিত মুক্তা স্বরূপ অশুবিন্দু। যা গ্রহণ দ্বারা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে অলৌকিক শক্তি প্রবাহিত হয় এবং মানব হৃদয়ে পৌঁছে হৃদয়কে জাগৃত করার সহায়ক হয়।

রুদ্রাঙ্ক ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অত্যন্ত উপযোগীতা প্রাপ্ত করেছে। গ্রহের দুঃপ্রভাব নষ্ট করতে রুদ্রাঙ্কের বিশেষ রূপে ব্যবহার করা হয়, যা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সঠিক উপায়। জটিল ও কঠিন রোগ নিরাময়ে যদি জন্মপত্রিকা অনুযায়ী রুদ্রাঙ্কের ব্যবহার করা হয়, তাহলে আশ্চর্যজনক পরিণাম দেখা যায়। রুদ্রাঙ্কের শক্তি এবং সামর্থ্য এর মুখের উপর নির্ভর করে। রুদ্রাঙ্ক সিদ্ধিদায়ক, পাপনাশক, পুণ্যবর্ধক, রোগনাশক এবং মোক্ষ প্রদায়ক হিসাবে বর্ণিত ও সর্বমান্য।

এক মুখী থেকে চোদ্দ মুখী অবধি রুদ্রাঙ্ক বিশেষ রূপে পাওয়া যায় ও ব্যবহৃত হয়, রুদ্রাঙ্কের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা আলাদা-আলাদা মুখের উপর নির্ভরশীল। রুদ্রাঙ্ক ধারণে যেমন আপনি গ্রহ দোষ থেকে লাভ প্রাপ্ত করতে পারেন, তেমনি আপনার শারীরিক রূপ ও সুস্বাস্থ্য লাভেরও সহায়ক। রুদ্রাঙ্কের স্পর্শ, দর্শন, ধারণ, পূজন, জপ করা এবং মালা ধারণ করলে সমস্ত পাপ নাশ ও বাধা বিঘ্ন দূর হয়। রুদ্রাঙ্ক মহাদেবের বরদান স্বরূপ, কিন্তু ধারণের উপযুক্ত নিয়ম এবং মন ও ভাবনা শুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

রুদ্রাঙ্কের দানার উপর কাটা দাগ অনুযায়ী রুদ্রাঙ্কের মুখের নির্ধারন হয়ে থাকে। রুদ্রাঙ্কের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি একটি রেখা দেখা যায়, যাকে মুখ বলা হয়। রুদ্রাঙ্কের এই রেখা বা মুখ সাধারণতঃ এক থেকে ১৪ মুখী অবধি হয়ে থাকে কিন্তু কখনও-কখনও ১৫ থেকে ২১ মুখী পর্যন্ত রুদ্রাঙ্ক দেখা যায়। অর্ধেক বা ভগ্ন লাইন বা দাগকে মুখ মানা হয় না, যতগুলি লাইন পুরো স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় মুখ ততোগুলোই মানা হয়।

পুরাণে প্রত্যেক রুদ্রাঙ্কের আলাদা-আলাদা মহত্ব এবং উপযোগিতার উল্লেখ করা হয়েছে -

এক মুখী - সূর্য গ্রহ-স্বাস্থ্য, সফলতা, মান-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস, অধ্যাত্ম, প্রসন্নতা, অনায়াস ধনপ্রাপ্তি, রোগমুক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং শত্রুদের উপর বিজয় প্রাপ্তি করায়।

দু মুখী - চন্দ্র গ্রহ-বৈবাহিক সুখ, মানসিক শান্তি, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, একাগ্রতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি, পারিবারিক সৌহার্দ, ব্যবসায় সফলতার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত মানা হয়।

তিন মুখী - মঙ্গল গ্রহ-শত্রু দমন ও রক্ত সম্বন্ধীয় বিকার দূর করতে সহায়ক হয়।

চার মুখী - বুধ গ্রহ- শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও কামশক্তি বৃদ্ধি করায়।

পাচ মুখী - গুরু গ্রহ- শারীরিক আরোগ্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানসিক শান্তি এবং প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্য ব্যবহার করা হয়।

ছয় মুখী - শুক্র গ্রহ - প্রেম সম্বন্ধ, আকর্ষণ, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি, তীব্র বুদ্ধি, কার্যে পূর্ণতা ও ব্যবসায় আশ্চর্যজনক সফলতা প্রাপ্ত করায়।

সাত মুখী - শনি গ্রহ- শনি দোষ নিবারণ, ধন-সম্পত্তি, কীর্তি, বিজয় প্রাপ্তি, কর্ম ও ব্যবসা ইত্যাদিতে সাফল্য বৃদ্ধি করায়।

আট মুখী - রাহু গ্রহ- রাহু গ্রহ সম্বন্ধিত দোষের শান্তি, জ্ঞানপ্রাপ্তি, চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি, মামলা-মোকদ্দমায় বিজয়প্রাপ্তি, দুর্ঘটনা ও প্রচণ্ড শত্রুদের থেকে রক্ষা, ব্যবসায় সাফলতা ও উন্নতিকারক।

নয় মুখী - কেতু গ্রহ- কেতু গ্রহ সম্বন্ধিত দোষের শান্তি, সুখ-শান্তি, ব্যবসায় বৃদ্ধি, ধারণকারীর অকালমৃত্যু হয় না এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

১০ মুখী - ভগবান মহাবীর- কার্য ক্ষেত্রে প্রগতি, স্থিরতা বৃদ্ধি, সম্মান, কীর্তি, বিভূতি, ধন প্রাপ্তি, লৌকিক-পারলৌকিক কামনা পূর্ণ হয়।

১১ মুখী - ইন্দ্র গ্রহ- আর্থিক লাভ, সমৃদ্ধিশালী জীবন, কোনো বিষয়ের অভাব না হওয়া এবং সমস্ত সংকট ও কষ্ট দূর হয়ে যায়।

১২ মুখী - ভগবান বিষণ্ণ গ্রহ- বিদেশ যাত্রা, নেতৃত্ব শক্তি প্রাপ্তি, শক্তিশালী, ও তেজস্বীতা প্রদান করে। ব্রহ্মচার্য রক্ষা, চেহারায় তেজ ও ওজস্বীতা প্রদায়ক। শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দূর করে।

১৩ মুখী - ইন্দ্র গ্রহ- সর্বজন আকর্ষণ ও মনঃস্কামনা প্রাপ্তি, যশ-কীর্তি, মান-প্রতিষ্ঠা এবং কামদেবের প্রতীক। প্রেত বাধা ও নজর দোষ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ উপযোগী।

১৪ মুখী - শনি গ্রহ- আধ্যাত্মিক উন্নতি, শক্তি, ধন প্রাপ্তি এবং কষ্টনিবারক। শনির সাড়ে সাতী বা ঠেয়ার সময়ে বিশেষ কষ্টনিবারক হিসাবে উপযুক্ত।

আপকী কুন্ডলী ঔর রাদ্রাক্ষ

আপনার কুন্ডলী কুন্ড লগ্নের। আপনার ব্যক্তিত্ব শনির প্রভাব গত হবে। আপনি পরিস্কার মনের ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। আপনার কাজে কারো হস্তক্ষেপ আপনি সহ্য করতে পারেন না। আপনি পরোপকারী ও উদার মনের মানুষ। গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে কাজ করা আপনার ভালো লাগে, এই জন্য আপনার মিত্র সংখ্যা প্রচুর। আপনি সকলকে নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। আপনি নিজের দ্বারা করা কার্যেরও কোনো প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করেন না। সদা সর্বদা পিছনে থেকে কাজ করা পছন্দ করেন।

আপনার খোলাখুলি নিজের কথা বলার প্রয়াস করা উচিত। অন্যের কথা শোনা ও নিজের কথা খুলে বলার অভ্যাস করা প্রয়োজন। আপনি যে কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে ভাবতে থাকেন। কিন্তু আপনার ভাবনা ও অন্য লোকের ভাবনা ভিন্ন হওয়ার ফলে লোক আপনার কথা সহজে বুঝতে পারে না। আপনি অত্যন্ত ধীরে-ধীরে ভেবে-বুঝে কাজ করেন এবং সদা সক্রিয় ও সংঘর্ষরত থাকতে পারেন। আপনার ব্যবহার অন্যের থেকে আলাদা ও আপনি অতি সংযমী চরিত্রের ব্যক্তি। কখনও-কখনও আপনার আত্ম-সম্মান বোধ অহঙ্কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আপনার উচিত কখনও-সখনও অন্যের খুশীর খেয়াল রেখে কাজ করা।

ত্রিক ভাবের মধ্যে তৃতীয় ভাব, দ্বাদশ ভাব। দ্বাদশ ভাব, অষ্টম ভাবের পরে দ্বিতীয় অত্যন্ত অধিক অশুভ ভাব ধরা হয়। ৬, ৮ ও ১২ ভাবাধিপতি যে ভাবে স্থিত হয়, অথবা যে ভাবাধিপতির সাথে সম্পর্ক তৈরী করে, সেই ভাবের অশুভ বৃদ্ধি করে। এই তিন ত্রিক ভাবাধিপতির মহাদশা-অন্তর্দশায় প্রাপ্ত পরিণাম শূভফলদায়ক হয় না। ৬, ৮, ১২ ভাবেশ ও এই ভাবস্থিত গ্রহ অশুভ কারক হয়। যার ফলস্বরূপ

আপনি জীবনে মাঝে-মাঝে বাধা প্রাপ্ত হতে পারেন। ৬, ৮, ১২শ ভাবাধিপতি ও এই ভাবে অবস্থিত গ্রহ সকল নিজ-নিজ মহাদশা ও অন্তর্দশায় অনিষ্ট এবং অশুভ ফল দান করে।

আপনার কুস্ত লগ্ন হওয়ায় চন্দ্র যষ্ঠেশ, বুধ অষ্টমেশ ও পঞ্চমেশ, শনি দ্বাদশেশ এবং লগ্নেশ। আপনার কুস্তলীর ষষ্ঠ ভাব, কর্কট রাশি। কুস্তলীর ষষ্ঠ ভাব থেকে বাধা, অসুবিধা, রোগ, শত্রু, মামা, চাকর ইত্যাদি বিষয়ের বিচার করা হয়। এ ছাড়া এই ভাব থেকে ঋণ ও শত্রুর বিচারও করা হয়ে থাকে। ষষ্ঠ ভাব ছাড়া কুস্তলীর অষ্টম ভাব সর্বাঙ্গী অধিক অশুভ ভাব হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। অষ্টম ভাব থেকে আয়ু, মৃত্যু, দীর্ঘকালীন রোগ ইত্যাদির বিচার করা হয়।

আপনার কুস্তলীর ষষ্ঠ ভাবে কেতু স্থিত হওয়ায় আপনি আপনার শত্রুদের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হবেন, বাত সম্বন্ধীয় রোগ শীঘ্রই আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে, ভূত-প্রেত বাধার সৃষ্টি হতে পারে, অত্যধিক কথা বলা, এবং মামারবাড়ী থেকে অপমানিত হতে পারেন। আপনি অল্পকালীন রোগ পীড়িত হতে পারেন।

রাহু আপনার দ্বাদশ ভাবে অবস্থিত, রাহুর এই স্থিতি আপনার অবনতির কারণ হতে পারে, আপনি শত্রুহতা হবেন। আপনি নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত, কপট, কুটিল, নেত্ররোগী, অসত্যভাষী, দুরাচারী, পত্নীর চিন্তায় গ্ৰস্ত, আপনি দুশ্ট সংগীদের কারণে অর্থে অপব্যয় করতে পারেন। ধনার্জন এবং ব্যয় উভয়ই অধিক হতে পারে।

এই সমস্ত ফলের শুভত্ব প্রাপ্ত করতে আপনার ২, ৪, ৭, ৮, ৯ মুখী রত্নাঙ্কের কবচ ধারণ করা উচিত। এই কবচ সাদা সুতোয় সোমবার দিন গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে ওম নমঃ শিবায় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ধারণ করা উচিত। তার পরে ভগবান শিবের উপর কাচা দূধ ঢালুন। ক্ষমতানুসারে দান করুন। এই প্রকারে আপনার জীবনে আসা কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবেন এবং বিশেষ কষ্টের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ফল লাভ করবেন। কুস্তলীর সমস্ত গ্রহের শুভত্ব প্রাপ্ত করতে আপনার শিব কৃপা রত্নাঙ্ক মালা যা এক থেকে চোদ্দ মুখী রত্নাঙ্ক দ্বারা নির্মিত হয়, ধারণ করতে পারেন। এক থেকে চোদ্দ মুখী রত্নাঙ্ক মালা অদ্ভুত এবং চমৎকারী ফল প্রদান করে।

উপরোক্ত কবচ দশা, গোচর বিচার ব্যতীত আপনি জীবনভর ধারণ করতে পারেন। কারণ, এই কবচ জন্ম লগ্ন এবং সেখানে স্থিত গ্রহের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করতে অত্যন্ত আবশ্যিক।

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। लग्न स्थान के राहु आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। कभी कभी स्वास्थ्य अनुकूल रहते हुए भी बीमारी जैसा अनुभव होगा।

02 जून बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने से आपका स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावित हो सकता है। छठे स्थान का गुरुजल तत्व राशि में होने के कारण कफ, खांसीया पेट से संबंधित रोग हो सकता है।

इस माह की ग्रह परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में सूर्य आपके जीवन को सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान कर आपकी आरोग्यता को बढ़ा रहे हैं। सूर्य शुभता से आप को बीमारियां शीघ्र अपने प्रभाव में ले सकती हैं। ग्रह शुभता होने से आप अपने स्वास्थ्य सुख को लेकर संतुष्ट रहेंगे। यदि किसी कारणवश आप के स्वास्थ्य में अनियमितता होती है तो फिर से स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना आपके लिए एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है। एक छोटे रोग का ईलाज कराने में आपको लम्बा समय लग सकता है। माह अवधि में बन रहे ग्रह स्थिति योग आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। उपचार कराने की स्थिति का सामना आपको न करना पड़े इसके लिए आपको सामान्य एहतियात रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चिंता की कोई बात नहीं है।

इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ख़ास सावधानी बरतें। अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको कोई गले आदि में फोड़ा या पाचन तंत्र में गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की किसी भी स्वास्थ्य अनियमितता के प्रति आपको गंभीर रहना होगा और रोगों के प्रति उदासीनता से बचना होगा। इस माह नक्षत्र और ग्रह स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको गंभीर रोगों से बचने के लिए आपको रोग होने पर शीघ्र चिकित्सा करानी होगी। आपको किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है कि आप अपने फेफड़ों से जुड़ी वेदनाओं को लेकर सावधानी बरतें। इस माह आपको कफ अथवा खांसी की समस्या हो सकती है। प्रारंभित उपचार से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं।

इस माह सूर्य आपको रोगों से मुक्त रखेगा। आपको असाधारण जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपमें अधिक होने से आप रोगों के प्रभाव में शीघ्र

नहीं आयेंगे। रोग ग्रस्त होने पर आपके स्वास्थ्य में तेजी के साथ लाभ होगा। सूर्य शुभता से आपको नेत्रों, अस्थियों, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त तथा पित्त संबंधी आदि रोग प्रभावित नहीं कर पायेंगे। इस माह में आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तथा स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। आंशिक रूप से आपको सिर दर्द की शिकायत हो सकती हैं। अचानक से बुखार आना तथा शीघ्र क्रोध की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में होने वाले विकारों को अनदेखा करने पर छोटे रोग गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। सावधान रहें।

यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल रहेगा। सूर्य शुभता आपको रोग मुक्त रखने में पूरा सहयोग करेगी। आप स्वयं में ऊर्जा और जीवन शक्ति के एक बड़े स्रोत का अनुभव करेंगे। फिर भी आपको अपने पाचन तंत्र, नेत्र रोगों तथा मुंह रोगों से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की नियमित जांच कराते रहना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। वायुप्रद रोग, गठिया और पुराने रोगों से स्वयं का बचाव करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता हैं। सामान्य सावधानी बना रख आप रोगों को नियंत्रित रख पायेंगे। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अनावश्यक देरी किए बिना, किसी भी बीमारी के प्रभाव में आने पर आपको शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी चाहिए। साथ ही अपने हृदय से संबंधित रोगों की जांच भी आपको बारीकी से कराते रहना चाहिए।

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य शुभता आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी। शारीरिक कमजोरी और तंत्रिका संबंधी विकार संबंधित स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। इस माह आप अपने ऊपर अत्यधिक तनाव न लें। आपकी यह प्रवृत्ति मजबूत शारीरिक शक्ति के बावजूद स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाते हुए स्वयं को स्वस्थ दिखाना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता हैं। अस्थमा और पानी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए सामान्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा लेनी लाभकारी रहेगी। यदि आप थकावट और अत्यधिक तनाव से बचाव करते है तो आपको कोई गंभीर खतरा नहीं होगा।

इस माह सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। जिससे आप सूर्य की सुरक्षात्मक शक्तियों का पूरा लाभ प्राप्त होने की आशा कर सकते हैं। इस अवधि में आपको पाचन अंगों में विकार एवं जुकाम से ग्रस्त होने की संभावना है। सूर्य आपकी बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित रखेगा। केवल सामान्य सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर भी रोगों का शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक रूप से देरी न करें। रोगों का पूर्ण उपचार न कराना और स्वयं को स्वस्थ मानना आपके रोगों को बढ़ा सकता हैं। एक छोटे से दुःख का भी शीघ्रता से ईलाज करायें और अनावश्यक देरी करने करने से बचें। अस्थमा और छाती के

रोगों पर केवल कुछ सावधानी रख नियंत्रण रख सकते हैं। बचाव करने से बड़े रोग प्रभावी नहीं हो पायेंगे।

इस माह स्वास्थ्य वेदनाओं से छुटकाना पाने के लिए सूर्य का सुरक्षात्मक प्रभाव पर्याप्त नहीं होगा। इस माह आपमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम रहेगी। अचानक और गंभीर बीमारियों के लिए आप का स्वास्थ्य संवेदनशील बना हुआ है। यह आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपके पीलिया और दिल के गंभीर रोगों को खराब कर सकता है, इसके अतिरिक्त बुखार या सूजन आदि भी सरलता से आपको बीमार कर सकते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। अन्यथा आपके हालात तेजी से बिगड़ने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य सुधार प्रक्रिया आपके लिए एक धीमी और काफी हद तक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए स्थिति का निराकरण करने के लिए हर प्रकार से एहतियात रखना होगा। इस माह के ग्रह, नक्षत्र और योग आपके रोगों के मामलों का शीघ्रता से निपटारा नहीं कर रहे हैं। सावधानी रखनी हितकारी रहेगी।

इस महीने सूर्य असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान कर आपको हर प्रकार की गंभीर वेदनाओं से मुक्त रखेगा। यही कारण है कि आपको कब्ज, पेचिश, पेट से संबंधित आदि बीमारियों से बचाव के लिए व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आपके पीड़ित हो जाने पर स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और थकाऊ हो सकते हैं। इस माह की शुभ ग्रह स्थिति आपको गठिया और पाचन संबंधी रोग, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से मुक्त रखेगी। अत्यधिक भोग से दूर रहना आपके लिए इस माह बहुत अच्छा रहेगा।

इस माह के ग्रह योग काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेंगे। सूर्य आपको असाधारण जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र का कार्य करेगी। दुर्बलता, थकावट और अत्यधिक परिश्रम करने से होने वाले विकारों और तंत्रिका तंत्र के विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप आप स्वयं रोगों को आमंत्रित न करें। सामान्य सावधानी लें। जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। अपनी ऊर्जा शक्ति का उचित उपयोग करना इस माह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

सूर्य इस माह आपको असाधारण शक्ति और जीवन सुरक्षा प्रदान करेगा। इस माह आपको यौन अंगों में बीमारी होने की संभावना बन रही है। समय रहते जांच कराते रहें। इसके

अतिरिक्त इस माह आप अन्य किसी भी प्रकार के रोग प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। छोटी बीमारियां के भी प्रभावी होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने वाली जीवन शैली को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस माह की स्थिति आपको एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के योग बना रही हैं। यदि आप पीड़ित होते हैं तो यह आपकी लापरवाही होगी और ऐसे में स्वस्थ होना आपके लिए एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी। सामान्य स्वस्थता को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।

जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है यह माह आपके लिए एक अच्छा माह रहेगा। सूर्य आपको असाधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। छोटी बीमारियों को अनदेखा न करें अन्यथा यह बड़ी हो सकती हैं। स्वयं को इस माह रोग मुक्त रखने के लिए आप छोटी बीमारियों का समय रहते ईलाज करायें अन्यथा आरोग्य लाभ में काफी जटिल समस्या पैदा हो सकती है। शेष अन्य कोई गंभीर रोग होने की कोई संभावना नहीं है।

स्वास्थ्य सुख के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह है। इस माह में सूर्य आपको अतिरिक्त साधारण सुरक्षा और जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह सुरक्षा और जीवन शक्ति आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहें। इसके लिए आप अपना सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र तथा वायु से होने वाले रोग के प्रति अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के छोटा सा दुःख होने पर, किसी भी समय हानि के बिना तुरंत ईलाज करायें। अन्यथा आपके लिए स्वस्थ होना जटिल मामला सिद्ध हो सकता है। यह आपके लिए एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा इस माह स्वास्थ्य विषयों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सरल, सामान्य सावधानियां रखना पर्याप्त होगा।

स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष का पूर्वार्द्ध बढ़िया नहीं रहेगा। लग्न स्थान का पाप कर्तरी योग में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनी रहेगी। यदि पहले से किसी लम्बी बीमारी से ग्रसित हैं तो यह समय आपको अधिक प्रभावित कर सकता है ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है।

जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ हो रहा है जिसके प्रभाव से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी और आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। आप प्रत्येक कार्य को सकारात्मक रूप से करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी सुधरेगी।

इस माह जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, इस माह आपको अपने शुभ भाग्य के लिए आभारी रहना चाहिए। इस माह के ग्रह नक्षत्र यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस अवधि में आपको किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट के परेशान न करने की संभावना बन रही है। अत्यधिक परिश्रम करना कुछ खतरनाक हो सकता है। आपको इससे बचना होगा। आपको अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए आप को अपने कार्यों का एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। यदि आप इस विषय में किसी प्रकार की एहतियात नहीं लेते हैं तो आप गंभीर प्रकृति की समस्याओं में घिर सकते हैं। थकावट और तंत्रिका विकारों को बिल्कुल अनदेखा न करें। अन्यथा छोटे सा रोग देखभाल न करने पर गंभीर मुसीबत का आकार ले सकता है। अन्य विषयों के लिए इस माह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

इस माह के ग्रह, सितारों की स्थिति आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शुभ नहीं बनी हुई है इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। यदि आप किसी भी प्रकार की पुरानी अनिमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको इनकी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए आपको इस अवधि में उचित देखभाल और व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस स्थिति में आपको जुकाम, खांसी जैसी वेदनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दवा इत्यादि भी समय पर बिना किसी चूक के लेते रहें। इससे स्वास्थ्य सुख बिना हानि के प्राप्त किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों पर आप तत्काल ध्यान रखने में विफल होते हैं तो बहुत तेजी के साथ हालात बिगड़ने की संभावना बन रही है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्वर आदि का समय पर उपचार करायें। इससे आप किसी भी गंभीर समस्या से बच सकते हैं।

इस माह के ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम नहीं बनी हुई हैं। ग्रह स्थिति से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आपको अचानक से गंभीर रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध अथवा तीव्र दुःख की घटना होने के विषय में सावधान कर रहा हैं। यदि आप इसमें असफल रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। पुराने रोगों की वापसी आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। सिर से संबंधित किसी बीमारी के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। वास्तव में स्वास्थ्य के लिए यह माह बहुत उज्ज्वल नहीं रहेगा। सिर के रोगों के निवारक के रूप में बालों के लिए किसी तेल या औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। इससे आपके स्वास्थ्य चिंताओं में कमी होगी।

उस माह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। इस माह पुराने रोग जैसे पाचन तंत्र, वायु रोग एवं गठिया रोग होने का खतरा हैं। इस विषय में अत्यंत सावधानी बरतना हितकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप गले की खराश से पीड़ित होने की संभावना बन रही हैं। आपको अपने हृदय की जांच सूक्ष्मता से करानी चाहिए। इससे हृदय रोगों का पता समय रहते चल जाएगा। इस माह बन रहे ग्रह, नक्षत्र और योगों के अनुसार रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा राहत प्राप्ति एक अच्छा विचार होगा। यह माह आपके स्वास्थ्य के पक्ष से अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इस अवधि में स्वयं की देखभाल करने की विशेष आवश्यकता पड़ सकती हैं।

इस माह की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर व्यय करना पड़ सकता हैं। स्वास्थ्य के पक्ष से यह स्थिति बहुत प्रेरणादायक नहीं हैं। फिर भी छोटी छोटी सावधानियां बनाए रखने से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। अस्थमा और तरह-तरह की जीर्ण अनियमितताओं के होने का खतरा बन रहा हैं। लगातार उचित देखभाल सुनिश्चित करने से आप हालात की गिरावट को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने सामर्थ्य शक्ति से अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। अन्यथा सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी आपके लिए काफी नुकसान देह हो सकती हैं। सामान्य सावधानियां निर्धारित करने से और चिंताजनक स्थितियों से स्वयं को दूर रखने से स्थिति आपके नियंत्रण में बनी रहे।

माह अवधि में बन रहे ग्रह, नक्षत्र और स्थिति आपके स्वास्थ्य के मामलों के बारे में बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इस अवधि विशेष में आपके पाचन अंग आसानी से अव्यवस्थित हो सकते हैं। आपको जुकाम, खांसी, दमा जैसी पुरानी शिकायतें परेशान कर सकती हैं। इन रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपका योग-व्यायाम सावधानी के रूप में

करना चाहिए। तथा स्वास्थ्य में किसी भी तरह की अनियमितता, वेदना का गंभीरता से ईलाज करना चाहिए और आवश्यक दवाएं भी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के हालात काफी तेजी से बिगड़ सकते हैं। इस विषय में किसी भी तरह की विफलता होने पर स्वास्थ्य ओर खराब होकर समस्या पैदा कर सकता है। यह एहतियात बरतने से आप स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकटों से बच सकते हैं। इन उपायों को आप विशेष रूप से इस माह प्रयोग कर सकते हैं।

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगा। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको इस माह बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया तथा जीर्ण रोग जैसी पुरानी बीमारियां हैं। उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यही कारण है कि आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और उचित देखभाल रखते हुए आवश्यक पड़ने पर उचित उपचार भी लेते रहें। इनमें से किसी भी प्रकार की देरी गंभीर प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकती है। ग्रह नक्षत्र का पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इस माह आपका अत्यधिक भोजन करना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधानी के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करते हुए, अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रख सकते हैं।

इस माह में बन रहे ग्रह योगों की स्थिति आपके लिये बहुत उत्तम नहीं बनी हुई हैं। विशेष रूप से यदि आप अल्सर, पीठ दर्द एवं जीर्ण रोग जैसी पुरानी अनियमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल के लिए व्यायाम कर सकते हैं। अथवा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी होगी। आप अचानक से बुखार रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अथवा आप शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं। समय पर इन रोगों से रक्षा करने से आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद आप बचाव कर गंभीर संकटों से बच सकते हैं।

इस माह के सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत बेहतर नहीं बनी हुई हैं। माह आरम्भ में आपको अपने पुराने रोगों के लिए सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा आपको स्वास्थ्य कमियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुकाम, खांसी और जीर्ण प्रकार के रोगों का प्रभाव होने पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा, बवासीर से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह सितारों की स्थिति आपके अनुकूल न होने के बावजूद आप एक नियंत्रित जीवन शैली का यापन कर अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य सुख को भी बनाए रख सकते हैं।

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही हैं। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न करें, स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए आपकी तत्परता आवश्यक है। ग्रह एवं नक्षत्रों की शुभता आपके सभी स्वास्थ्य विकारों का समाधान कर रही हैं। आंशिक रूप से पाचन शिकायतें, गठिया, वायु रोग एवं पुराने रोगों का न उभरना आपको राहत देगा। परन्तु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य विकारों को अनदेखा करने लगे। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सामान्य सावधानी रखें और गंभीर विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की किसी भी छोटी सी शिकायत को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। इससे यह माह आपके लिए शुभ होकर अनुकूल बना रहेगा।

स्वास्थ्य - 2028

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ अच्छा नहीं रहेगा परन्तु 28 फरवरी के बाद सप्तम स्थान में गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रखने के लिए खान-पान एवं दिनचर्या भी सही रखें।

24 जुलाई के बाद गुरु ग्रह का गोचर फिर से प्रतिकूल हो रहा है। बीमारी, दुर्घटना या किसी प्रकार के शरीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। परन्तु राहु एवं शनि ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। सुबह सुबह व्यायाम अथवा योगा करें।

सितारों की पूर्ण शुभता प्राप्त न होने के कारण इस माह अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधित अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से थकावट से दुर्बलता की स्थिति बनकर गंभीर संकट उत्पन्न होने के संभावना बन रही है। इस माह में आपकी पहली प्राथमिकता अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा शक्ति का व्यय होने से बचना है। साथ ही इस माह में आप अपनी सहनशक्ति से काम लें। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको अपने कार्यों का पूर्व कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा। साथ ही इस कार्यक्रम का सख्ती के साथ पालन करना होगा। यदि आप को लिवर से संबंधित पुराने रोग है तो आपको इन रोगों के लिए भी सावधान रहना होगा। लिवर को मजबूत रखने के लिए आप दवा आदि भी प्रयोग कर सकते हैं।

इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत ज्यादा प्रेरणादायक और उत्साहजनक नहीं हैं। हमेशा की तरह इस स्थिति में आपको अपने रोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं के प्रयासों और बुद्धि पर काफी भरोसा करना होगा। जुकाम, खांसी जैसी गड़बड़ियों से आपको काफी परेशानी हो सकती हैं। ऐसे रोगों का आपको हर संभव उपचार और ध्यान रखना होगा। लिवर रोगों की पुरानी परेशानी होने पर आपको इनसे बचाव के उपाय करने लाभकारी रहेंगे। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप आवश्यक टॉनिक ले। यह आपके रोगों में कमी करने में मदद करेगा। माह अवधि के सितारों आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। आपको ख्याल रखना होगा।

इस माह स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको स्वयं प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस अवधि में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं। माह अवधि में आपको अचानक बुखार या तीव्र किस्म की सूजन की संभावना बन रही है। इनका तुरंत और प्रभावी ढंग

से ईलाज कराना आपको राहत देगा। इस प्रकार के रोग विकार आपको अल्पकाल के लिए वेदना देंगे। परन्तु उचित उपचार समय पर न करने पर आपके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपको इससे पूर्व लिवर संबंधित रोग रहें हैं तो इस अवधि में आपको इन रोगों से रक्षा हेतु विशेष सावधानियों का पालन करना पड़ सकता है। यदि संभावित हो तो उपयुक्त उपचार भी इस अवधि में लिया जा सकता है। साथ ही छोटी-छोटी अतिरिक्त सावधानियां रखने से आपको इस अवधि में विशेष राहत प्राप्त हो सकती है।

यह माह आपके लिए एक अनुकूल माह रहेगा क्योंकि इस माह आपको ग्रहों की शुभता का आशिर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह माह स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा माह है। इस माह आपके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र आदि जैसे पुरानी बीमारियों के इस माह अवधि में शांत रहने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में सावधानियां रखना लाभकारी रहेगा और स्थिति काफी संतोष जनक रहेगी। इसके अतिरिक्त गले में खराश आदि का आपको अतिरिक्त ध्यान देना होगा। इस तरह के रोग के आशंक लक्षण प्रकट होने पर रोग की सूक्ष्म जांच करना हितकारी रहेगा। हृदय रोगों के लक्षण होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा इस माह विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानी बरतने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा।

इस माह ग्रह, नक्षत्र योग बहुत शुभ नहीं बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपको निरोगी बने रहने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी प्रकार से अनदेखा न करना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से बचें। इससे आप में शारीरिक दुर्बलता आ सकती है। साथ ही स्नायु संबंधी विकार भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस माह से जुड़ी सभी समस्याओं का स्रोत अत्यधिक परिश्रम आ रहा है। इसलिए आपको इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कार्य भार का वितरण करने से स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण बना रहेगा। समय बहुत अच्छा नहीं है इसलिए ख्याल रखें।

इस माह के दौरान आपको किसी भी प्रकार की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी सावधानियों को एक तरफ कर दें। इस माह अवधि में अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को पाचन अंगों की परेशानियां निष्क्रिय रहने से आपको इन परेशानियों से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उपचार और आहार दोनों मामलों में सामान्य सावधानियां जारी रखनी होगी। छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमणों के प्रति आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार के लक्षण उभरने पर तुरंत,

बिना किसी देरी के उपचार कराना होगा। इन छोटी सी सतर्कताओं से आप इस माह अपने स्वास्थ्य शुभता को बनाए रख सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य पूरे माह अच्छा रहना चाहिए।

आपके स्वास्थ्य की शुभता बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह स्थिति का शुभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस माह स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहने के कारण कम ही बने हुए हैं। फिर भी आपको अचानक बुखार या सूजन आदि के ईलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। जिसमें आपको उचित देखभाल और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। तत्काल उपचार से भी लाभ होगा। इस संबंध में उपेक्षा हितकारी नहीं रहेगी। अन्यथा रोग बिगड़ने पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती है। इससे पूर्व किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो तो इस रोग से बचाव का आपको ध्यान रखना होगा। बचाव के रूप में आप लिवर रोगों के लिए किसी टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना आपकी स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करेगा।

ग्रह सितारें इस माह आपके लिए बहुत शुभ योग में न होने के कारण आपको अपना शुभ आशिर्वाद प्रदान नहीं कर हैं। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी हो सकती है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अधिक देखभाल, उपचार और आहार का ख्याल रखना होगा। इससे पूर्व यदि आपको लिवर संबंधित रोग रहे हैं तो इस समय में इन रोगों की वापसी हो सकती है। इस संबंध में घटने वाली घटनाएं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अपने लिवर रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई उपयुक्त दवा का सेवन कर सकते हैं। सावधानी रखना, रोगों को गंभीर होने से बचाएगा।

आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ विशेष सावधानियां रखना हितकारी रहेगा। रोगों का समय पर ईलाज न कराने से रोग गंभीर रूप ले सकते हैं। माह अवधि में अत्यधिक परिश्रम करने की वजह से आप सामान्य दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में सुधार करने के लिए आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को पुनःनिर्धारित करना होगा। इस माह में पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। लिवर आदि रोगों की रोकथाम के लिए आपको एहतियात के रूप में कोई दवा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी लिवर परेशानियों को नियंत्रित रखना होगा। परहेज के रूप में आप लिवर के लिए एक अच्छा टॉनिक ले सकते हैं।

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन हुआ है। इस माह अवधि में आपको बुखार या सूजन आदि की परेशानी हो सकती हैं। अचानक से गंभीर रोग आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। किसी भी रोग के आंशिक लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत उपचार लेना चाहिए। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करना है। ईलाज में देरी से आपकी स्थिति में तेजी के साथ हालात खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इस माह में दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन सकती हैं। आपको ऐसी घटनाओं के प्रति रक्षा और सावधानी बरतनी होगी। यह आपके लिए एक कठिन समय है इस दौरान घटनाएं आपके प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी होगी।

स्वास्थ्य विषयों के लिए यह माह काफी लाभकारी रहेगा, इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग और पेट फूलना आदि पुरानी बीमारियों से आपको राहत का अनुभव होगा। किसी रोग के प्रभावी होने पर आपको रोग मुक्त होने में अधिक देखभाल नहीं करनी होगी। इस माह में आपको स्वास्थ्य परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व ही लिवर संबंधी रोग परेशान करते रहते है तो इस अवधि में आप इसके उपचार के लिए कोई उपयुक्त दवा ले सकते हैं। बचाव करने से रोग शीघ्र प्रभावी नहीं होंगे।

स्वास्थ्य - 2029

वर्ष का प्रारम्भ स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। शारीरिक आरोग्यता अनुकूल बनी रहेगी। शनि एवं गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आपके अंदर रोग प्रतिरोधक विकसित होगी। 29 मार्च के बाद मौसमजनित बीमारियों से यदि आप परेशान होते हैं तो जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ही करें।

08 अगस्त के बाद शनि का गोचर प्रभावित हो रहा है। उस समय आपको स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पारिवारिक परेशानी के कारण दिमागी तनाव न पालें। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना लाभप्रद रहेगा। समय का सदुपयोग कर अपनी जीवनशैली बेहतर बनाने की कोशिश करें।

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। कार्या और गतिविधियों का पूर्वनियोजन आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

माह अवधि में ग्रहों एवं सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही है। यह मुश्किल समय है सतर्कता बनाए रखें। हाथ और पैर कुछ ठंडे हो आपके स्वास्थ्य सुख में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा आपमें सामान्य घबराहट की स्थिति बन सकती है। रोग सामान्य से अधिक बढ़े इससे बेहतर है कि इनका समय रहते निराकरण किया जाए। ग्रहों की प्रतिकूलता आपसे अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की मांग कर रही है। इस अवधि में आपके स्वभाव में उदासी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस समय में अशुद्ध या बासी भोजन करने से परहेज करना होगा। सावधानी बरतें। भोजन में विषाक्तता निश्चित रूप से स्वास्थ्य कमी का कारण बन सकता है। सतर्क बने रहें।

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे

है और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचार धारा से दूर होकर हंसमुख बने रहें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाईयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार के रोग के गंभीर रूप धारण करने से पहले आप इसके निवारक उपाय के रूप में सिर के लिए टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। यह माह आपके लिए काफी संतोषजनक माह सिद्ध होगा क्योंकि इस माह में आपके किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना नहीं है।

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह अनुकूल नहीं बन रहा है। इस माह में आपको ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही इस माह में अत्यधिक परिश्रम करना आपको थकावट का कारण बन आपको दुर्बलता की स्थिति दे सकता है। यहां तक की आपके तंत्रिका विकार भी पीड़ित होने की संभावना बन रही है। यह स्थिति न बने इसके लिए सावधान रहना चाहिए। कार्यों की अधिकता से अनावश्यक रूप से आपके शारीरिक तंत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करना होगा। तथा छाती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का आपको तुरंत ईलाज करना होगा।

इस माह स्वास्थ्य सुख को लम्बे समय के लिए सुखमय बनाए रखना आपके लिए सहज नहीं होगा। आपके पाचन अंगों में सरलता से परेशानी हो सकती है। परहेज करने से आप अपने रोगों को गंभीर होने से बचा सकता है। आपको अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा। आहार और ईलाज पर भी आवश्यक नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। जुकाम, खांसी जैसी छाती की पुरानी शिकायतों पर ध्यान देने से ये रोग अपना प्रभाव नहीं दिखा पायेंगे। रोगों के बढ़ने पर स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। भोजन में विषाक्तता के प्रति सतर्कता बनाए रखें। अशुद्ध खाद्य पदार्थ भी आपकी मुसीबतों का एक स्रोत बन सकते हैं। सावधानी रखना हितकारी रहेगा। माह अवधि में ग्रह योग भी आपके अनुकूल नहीं बन रहे हैं।

इसलिए स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी चाहिए।

स्वास्थ्य के लिए यह माह आंशिक रूप से अनुकूल बन रहा है। सितारों का संयोजन आपके लिए बहुत कम शुभ स्थिति बना रहा है। बुखार एवं शीघ्र क्रोध में आना जैसी गड़बड़ियां आपको परेशानी दे सकती हैं। अचानक से गंभीर बीमारी आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। अतिरिक्त देखभाल करने और बहुत शीघ्र उपचार जैसे कदम उठाना आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार का नेत्र संक्रमण होने की संभावनाएं बन रही हैं। सावधान रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। अन्यथा आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अशुद्ध खाने के प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विषाक्त भोजन के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। यह अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इस समय में अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठिक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

इस माह के ग्रह एवं सितारों आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माह अवधि में स्वास्थ्य शुभता सुनिश्चित हो रही हैं। इसलिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करने की संभावना बहुत कम बन रही हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपमें ऊर्जा शक्ति अनुकूल रहेगी और आप प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। पाचन तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने और इसमें कार्यात्मक विकार उत्पन्न न होने से आपको राहत प्राप्त होगी। फिर भी आप थोड़ी सावधानियां बनाए रखें। भोजन में विषाक्तता होने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः आप किसी भी अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन न करें और सावधान रहें। अतिरिक्त देखभाल करना आपको आरोग्यता देगा। इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यह माह आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

इस माह में बन रही ग्रहों की स्थिति आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होना सुनिश्चित कर रही है। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। इस माह में बुखार, सूजन या अचानक से किसी गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका स्वभाव उत्साहजनक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम जैसे विकारों से ग्रस्त लोगों को भी राहत मिलेगी। फिर भी इस माह दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य की कुछ अतिरिक्त देखभाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता को प्रोत्साहित कर रहा है।

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार, सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

स्वास्थ्य - 2030

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। कार्यों के प्रति सक्रिय और अति उत्साहित होने के चलते आप पूरे साल एकदम तंदरुस्त रहेंगे। सुबह-शाम टहलना व नियमित व्यायाम अभ्यास को बरकरार रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।

17 अप्रैल के बाद मामूली संक्रमण की चपेट में आप जरूर आ सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। चिंता करने से जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आपका ही प्रदर्शन कमजोर साबित होगा। गुरु ग्रह के गोचर के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा।

यह माह आपके लिए सहायक माह होकर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहा है। कुछ मामूली समायोजनों को अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आपको अत्यधिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कार्यभार की अधिकता से आपके शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर अनुचित दबाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके आसपास का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा। किसी भी तरह के अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से बचना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। इस माह को उत्तम बनाए रखना आपके लिए सहज होगा। इसके अलावा यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माह सिद्ध होगा।

ग्रहों की शुभ स्थिति के आशिर्वाद के कारण यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसलिए इस माह आपको कम देखभाल और ध्यान की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाएगा। यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए अतिउत्तम बना हुआ है। आपके सामान्य परिवेश की प्रकृति भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य शुभता का निर्धारण करेगी। नकारात्मक विचारधारा के लोगों से बचने के लिए आप इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अप्रिय लोगों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है। खांसी, जुकाम जैसे रोग आपके स्वास्थ्य सुख में आंशिक कमी कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एहतियात बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा।

इस माह के दौरान बनने वाली ग्रह युति आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान

कर रही हैं। आप अचानक से किसी रोग के प्रभाव में आ सकते हैं इस प्रकार की बीमारियों के उपचार के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपचार के बिना यदि स्वास्थ्य शुभता बनी रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उपचार शीघ्रता से कराना उति उत्तम फल प्रदान करेगा। इससे रोगों का शीघ्र समाधान होगा और रोग अपनी आरम्भिक अवस्था में ही शांत हो जायेंगे। इस माह विशेष चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य के पक्ष से भी यह समय शुभफलदायक बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह से चिंतित नहीं रहेंगे।

इस माह के सितारें आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

इस माह की शुभता सुनिश्चित करने के लिए ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य विकारों के लिए अनुकूल नहीं बनी हुई है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य कमी होने पर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक कार्यों के कारण आप थकावट से पीड़ित होकर सामान्य दुर्बलता का अनुभव करेंगे। इस माह अवधि में आपको स्नायु संबंधी विकार और मानसिक परेशानियां दिक्कत दे सकती हैं। इन रोगों का आपको अतिशीघ्र समाधान करना चाहिए। स्थिति और कार्यक्रमों में बदलाव कर आप अत्यधिक कार्यभार से बच सकते हैं। इन बदलावों का कठोरता से पालन करना भी आपके स्वास्थ्य सुख को बेहतर करेगा। साथ ही अपने रोगों की समय रहते देखभाल करनी होगी। इसके अतिरिक्त छाती क्षेत्र में संक्रमण का भी तुरंत ईलाज किया जाना चाहिए।

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही है। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपके उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती

से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपके रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

इस माह आप पर भाग्य का शुभ आशीर्वाद बना रहने के कारण आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। यदि पेचिश, कब्ज और पुरानी बीमारियों के रोगी हैं तो इन रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको विशेष राहत का अनुभव होगा। इस माह आपके पुराने रोग आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं देंगे। फिर भी रोगों के प्रति सामान्य एहतियात रखना आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। बशर्ते की आप इस माह किसी भी मुसीबत को आमंत्रित न करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। साथ ही आप अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से दूर रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

इस माह के सितारों की स्थिति आपको स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य मामलों का इस माह समाधान होगा और आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको सावधानी के रूप में अत्यधिक परिश्रम से बचना होगा। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको सभी प्रकार की सामान्य गतिविधियों को समय देना चाहिए। खेल और रुचियों को समय देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यों में कमी करने के लिए आप एक कार्य सारणी बनाकर इसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व चली आ रही स्वास्थ्य अनियमितताओं का आपको ख्याल रखना होगा। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों से दूर रहना होगा। तथा स्वास्थ्य सुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अच्छे वातावरण में रहना होगा।

इस माह में बन रही ग्रह संयोजन की अनुकूलता आपको चिंतित होने के बहुत कम कारण दे रही है। आंशिक कारणों को छोड़ दे तो इस माह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है।

आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास के पर्यावरण की प्रकृति आपके स्वास्थ्य सुख में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहना होगा। यह आपके भाग्य की शुभता में सहायता करेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सामान्य सावधानियां का प्रयोग आपके स्वास्थ्य हित में रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वातावरण आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल स्वभाव के लोगों से बचाएगा। इसके अलावा इस माह में आपको अपनी नेतृत्व शक्ति को सहज बनाना होगा। शरीर के गुप्त अंगों में परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य की उत्तमता आपके जीवन को सुखद बनाए रखेगी।

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रखेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रहना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

মহাদশা :- শুক্র (02/08/2006 - 02/08/2026)

আপনার জন্মকুন্ডলীতে শুক্রের মহাদশা আগামী ২০ বছরের জন্য ০২/০৮/২০০৬ শুরু হবে এবং ০২/০৮/২০২৬ সমাপ্ত হবে।

আপনার জন্মকুন্ডলীতে শুক্র তৃতীয় ভাবে অবস্থিত। শুক্র একটি শুভ গ্রহ, বৃষ ও তুলার অধিপতি। শুক্রের মূলত্রিকোণ রাশি তুলা এবং মীন রাশি উচ্চস্থান ও কন্যারাশি নিম্ন স্থান। শুক্র গ্রহ প্রেম, আনন্দ, ফ্যাশন, শিল্পকলা, বিবাহ ইত্যাদির দ্যোতক। আপনার জন্মকুন্ডলীতে চতুর্থ ভাবে স্থিত হয়ে দশম ভাবে দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিজের শুভ প্রভাব প্রদান করছে।

চতুর্থ ভাব মাতা, ভবন, পারিবারিক বাতাবরণ, ব্যক্তিগত সমস্যা, গুপ্ত জীবন, বাহন, উদ্যান, পৈতৃক সম্পত্তি, শিক্ষা, জল, দুধ, নদী তথা বীল ইত্যাদির দ্যোতক।

স্বাস্থ্য :

দশাধিপতি শুক্র চতুর্থ ভাব প্রবল করছে যা জ্যোতিষমতে সুখভাব। ফলস্বরূপ আপনার কোনো বিশেষ শারীরিক সমস্যা বা দুর্ঘটনা হবে না। যদি কোনো স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অসুবিধা দেখা যায় তা আপনি অত্যন্ত সাহসে সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হবেন। আপনি জীবন সাধারণ ভাবে আনন্দের সঙ্গে কাটাবেন।

অর্থ-সম্পত্তি :

শুক্র চতুর্থ ভাবে অবস্থিত হয়ে এই ভাবকে প্রবল করছে, এই দশায় আপনার সমৃদ্ধি, বাহন, অর্থ ও সম্পত্তি লাভ হবে। এই দশায় আপনি কিছু অচল সম্পত্তি, অচল সম্পত্তি বাস-ভবন, উত্তম ভবন লাভ করবেন। আপনার জীবনে ভোগ-বিলাস, আরাম, স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি থাকবে।

ব্যবসায় :

শুক্র এক শুভগ্রহ এবং এই রাশির জন্য যোগকারক গ্রহ। শুক্র চতুর্থ ভাবে অবস্থিত হয়ে দশম ভাব কর্ম জীবিকা ও জীবনযাপনের দ্যোতক দৃষ্টিপাত করছে। অতএব এই দশায় আপনি জমি-জায়গা, ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করায় ব্যস্ত থাকবেন। আপনার মাতা আপনার জীবকাজনের সহযোগিতা করবেন।

পারিবারিক জীবন :

আপনার বৈবাহিক জীবন সৌহার্দপূর্ণ ও সুমধুর হবে। আপনার জীবন-সংগী আপনাকে সহযোগিতা করবে। আপনি ভাবুক হওয়ার সাথে সাথে ধনবান, সম্মানিত ও আনন্দিত স্বভাবে হবেন। আপনার আগ্রহ ধার্মিক কার্যে বৃদ্ধি পাবে। আপনি পারিবারিক ও সামাজিক পরম্পরা ও রীতি-নীতির প্রতি সন্মানজনক মানসিকতা রাখবেন।

মহাদশা :- রবি
(02/08/2026 - 02/08/2032)

সূর্যের মহাদশা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ এবং ৬ বছর পরে ০২/০৮/২০৩২ সমাপ্ত হবে। আপনার জন্মকুণ্ডলীতে সূর্য পঞ্চম ভাবে স্থিত আছে। সূর্য আত্মা, শাসন, বিদ্যুত এবং আলোকের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু পঞ্চমভাব শিক্ষা, সন্তান এবং বুদ্ধির কারক স্থান। অতএব এই দশায় আপনার সন্তান সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। আপনার মন্ত্র শাস্ত্রে অভিরুচি বাড়বে এবং এর দ্বারা আপনি প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অর্জন করবেন।

স্বাস্থ্য :

সূর্য গৃহ আপনাকে উত্তম স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী করবেন। আপনার স্বাস্থ্য সাধারণ ভাবে ভালোই থাকবে। সূর্য আপনার রূপ-কান্তি এবং জীবনী-শক্তি প্রদানের কারকে। আপনার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হবে। আপনার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তি অতি উত্তম দর্শিত হয়। মানসিক শক্তির দৃষ্টিতে আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান হবেন। আপনার মধ্যে অটুট আত্মবিশ্বাস থাকবে। আপনি অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অন্তর্দর্শন/দূরদৃষ্টিক্ষমতা সম্পন্ন হবেন। আপনার পিত্ত দোষ অর্থাৎ পাচন ক্রিয়া সম্বন্ধীয় রোগ অথবা জ্বরাক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। সুপাচ্য ভোজন এবং স্বাস্থ্য রক্ষক গতিবিধির প্রতি সচেতন থাকা উচিত।

অর্থ :

এই দশা চলাকালীন আপনি লটারী, সাট্টা, শেয়ার বাজার, বিনিয়োগ ইত্যাদি থেকে অর্থ এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুখভোগের সামগ্ৰী প্রাপ্ত করবেন। আপনি সৌভাগ্যশালী এবং সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হবেন। আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ প্রাপ্ত করবেন। একাদশ

সহানে সূর্যের দৃষ্টি থাকার কারণে আপনার পৈত্রিক ধনপ্রাপ্তি যোগ দেখা যায়।

ব্যবসায় :

আপনি কোনো শক্তিশালী ও আধিকারিক পদ পেতে পারেন। আপনি পরামর্শদাতার কাজ করতে পারেন। আপনার জীবনযাপনের সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু ঘটনা ঘটিত হতে পারে। তা যেকোনো ঘটনাই হোক আপনার জন্য লাভজনক হবে। আপনি অধিক প্রয়াস বিনাই সফলতা পাবেন, আপনি উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবেন এবং আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। চাকুরীপেশার লোকেদের সহানুভূতি হতে পারে বা এবং কোনো যাত্রার দ্বারা লাভ প্রাপ্ত করবে। কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ যোগ দেখা যায়। আপনার চাকুরী ও কার্যবৃত্তির জন্য এই দশা অতি উত্তম যার দ্বারা আপনি লাভ ও শক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হবেন।

পারিবারিক জীবন :

আপনার সন্তান সমৃদ্ধিশালী হবে ও আপনি তাদের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত করবেন। আপনার কর্ম সুখকর হবে। আপনার অনেক মিত্র লাভ হবে, কারণ আপনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত উদার, নিষ্কপট ও সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। আপনার অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্তি হবে। আপনার জীবনসার্থী উচ্চ পদ, সরকার দ্বারা লাভ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি হবে। আপনার পিতার ভাগ্য বৃদ্ধি হবে। তার আধ্যাত্মিক ও দান পুণ্যের কার্যে রুচি হবে। আপনার ছোট-ভাই-বোনের সাহিত্য অথবা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লাভ হতে পারে ও সুখ-সুবিধা লাভ হবে। আপনার বড় ভাই-বোনেরা অংশীদারীতে লাভ ও পারিবারিক বিষয়ে যোগদান করবেন। তাদের সাথে আপনার মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

আপনার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। পরিবারে শিশু-জন্মের সময় সাবধান থাকুন।

শিক্ষা :

আপনার শিক্ষা, বিশেষকরে উচ্চতর শিক্ষা, উত্তম হবে। আপনার জন্য যান্ত্রিকী শিক্ষা লাভদায়ক হবে। আপনি জ্ঞানবান ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

আপনার অধ্যাত্ম এবং বেদান্ত দর্শনে রুচি হবে। আপনি মন্ত্র শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের বিষয়েও আগ্রহান্বিত হবেন।

পরামর্শ :

শুভ ফল বৃদ্ধির জন্য সোনার আঙ্গটিতে মাণিক্য অনামিকায় ধারণ করুন।

অন্তর্দর্শা :- রবি - রবি
(02/08/2026 - 20/11/2026)

আপনার সূর্যের মহাদর্শা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ হবে। এই মহাদর্শায় প্রথম অন্তর্দর্শা সূর্যের শুরু হবে, যার ভোগ্যকাল ৩ মাস ১৮ দিন, তারপরে ২০/১১/২০২৬ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা অধিপতি সূর্য, পিতা, অধিকার, শক্তি, নাম, যশ, আত্মবল ও আত্মার কারক।

এই অন্তর্দর্শায় আপনি সুখ-সুবিধায় পরিপূর্ণ থাকবেন। শেয়ার ইত্যাদি থেকে লাভ হওয়া সম্ভব। সন্তানরা শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করবে। আপনার উচ্চপদ প্রাপ্তি হতে পারে বা পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হতে পারেন। মন্ত্র, যোগ, ধর্মিক প্রবচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনার রুচি বৃদ্ধি হবে।

আপনার পিতার জন্য সময় ভাগ্যবর্ধক। ওনার নাম-যশ বাড়বে এবং তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ দেখাবেন। মাতার সম্পত্তি প্রাপ্তি হতে পারে। আপনার ভাই-বোনের জন্য এই সময় অতিশয় সন্তোষজনক। জীবনসার্থীর আয় বাড়বে। মামার পরিবারের খরচ বাড়তে পারে।

আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ছোট-খাটো কণ্ট যেমন জ্বর, পেট খারাপ হওয়া ইত্যাদি থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সৌভাগ্য প্রাপ্তির জন্য রবিবার দিন সূর্যোদয়ের সময় গম, লাল-পুষ্প ও চন্দন ইত্যাদি দান করুন।

অন্তর্দর্শা :- রবি - চন্দ্র
(20/11/2026 - 22/05/2027)

আপনার সূর্যের মহাদর্শা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ হয়ে ছিল। এর মধ্যে দ্বিতীয় অন্তর্দর্শা চন্দ্রের ছয় মাসের জন্য ও এই দর্শা ২২/০৫/২০২৭ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা স্বামী চন্দ্র মস্তিষ্ক, ঘর, মাতা ও সৌন্দর্যের কারক গৃহ।

এই সময়ে পরামর্শদাতারা প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। চাকুরিরত জাতকদের প্রশংসা ও প্রায়োন্নতি প্রাপ্তি হবে। ব্যবসায়ীদের ধন লাভ হবে। তাদের সংকল্পশক্তি দৃঢ় হবে।

ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার দ্বারা সম্পত্তি প্রাপ্ত হতে পারে। মাতার সাথে সম্বন্ধ উত্তম দেখা যায়। পিতার আয় বাড়তে পারে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে লাভজনক পরিবর্তন হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার নিস্পত্তি হয়ে যাবে। ভাই-বোনের সম্বন্ধে হঠাৎ পরিবর্তন আসতে পারে। মামারবাড়ীর লোকের ভাগ্য ভাব শুভ। বিদ্যার্থীগণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে ভালো ফল প্রাপ্ত করবে।

খেলাধুলায় আপনার রুচি বাড়বে।

স্নায়বিক উত্তেজনা ও অত্যধিক পরিশ্রম করা ক্ষতিকারক। হাঁটুর দেখাশোনা করা প্রয়োজন। শুভত্ব বৃদ্ধির চন্দ্র মন্ত্র জপ করুন।

ওঁ সোম সোমায় নমঃ

অন্তর্দর্শা :- রবি - মঙ্গল
(22/05/2027 - 27/09/2027)

আপনার সূর্যের মহাদশা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ হবে। এর তৃতীয় অন্তর্দর্শা মঙ্গল, যার ভোগ্যকাল ৪ মাস ৬ দিন। এই অন্তর্দর্শা ২৭/০৯/২০২৭ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা অধিপতি মঙ্গল সাহস, উৎসাহ ও ভাইয়ের কারক।

এই সময়ে আপনার আগ্রহ খেলা-ধুলা ও বিপদজনক কাজে বাড়তে পারে। কলা, বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকী বিষয়ে মন লাগতে পারে। কিন্তু অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক শক্তি প্রবল হবে। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দীরা পরাস্ত হবে। চাকুরিরত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ক্ষমতা উজ্জল হবে। পরামর্শদাতাদের জন্য সময় প্রতিদ্বন্দিতা পূর্ণ হবে। ব্যবসায়ীদের পরিশ্রম দ্বারা লাভ প্রাপ্ত হবে। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকুন। ফাটকাবাজী থেকে লাভ হতে পারে, হট-পাট করে কোনো কাজ করবেন না।

মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। ওনার মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে। আপনার পিতার অংশীদারের সঙ্গে সম্বন্ধ উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। আপনি কোনো সুদূর স্থানে যাত্রা করতে পারেন। আপনার সন্তানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সফল হবে ও বিভিন্ন গতিবিধিতে অংশ নিতে পারে। আপনার ভাই-বোনদের তাদের বর্তমান অবস্থা ধরে রাখতে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

আপনার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। সাধারণ জ্বর, গলা খারাপ, খোঁচা লাগা ইত্যাদি অসুবিধা হতে পারে। শুভত্ব বৃদ্ধির জন্য হনুমান চালাসা পাঠ করুন।

অন্তর্দর্শা :- রবি - রাহু
(27/09/2027 - 20/08/2028)

আপনার কুন্ডলীতে সূর্যের মহাদশা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ হয়ে ছিল। বর্তমানে চতুর্থ অন্তর্দর্শা রাহু গৃহের, এই অন্তর্দর্শা ২৭/০৯/২০২৭ আরম্ভ হয়ে ২০/০৮/২০২৮ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা অধিপতি রাহু ভৌতিক সুখ, তীর্থ যাত্রা এবং পিতামহের কারক গৃহ।

এই দশাবধি কালে আপনার ভাগ্য ভাব মধ্যম প্রকারের। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনি সময় ব্যতীত করবেন। কর্ম স্থলে বিরোধিতার সম্ভাবনা আছে। অতএব বিবাদ বিসংবাদ থেকে দূরে থাকুন। আপনার শত্রু বিনষ্ট হবে ও আপনি ঋণ মুক্ত হবেন। আপনি সমাজ সেবা দ্বারা লাভ প্রাপ্ত করবেন।

জীবনসংগীর কিছু সাধারণ অসুস্থতা হতে পারে। কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনার পিতার অচল সম্পত্তি বৃদ্ধি হবে ও তাঁর ব্যস্ততা বাড়বে। মাতার ধর্মাচরণে আগ্রহ বাড়বে। ভাই-বোনেরা সুখ্যাতি ও কর্ম ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্ত করবে। আপনার সন্তান শিক্ষায় ভালো ফল প্রাপ্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে।

যদি আপনি চাকুরীরত হন তাহলে নতুন কনট্রাক্টে হস্তাক্ষর করতে পারেন। পরামর্শদাতাদের নিজেদের বর্তমান অবস্থা শিহর রাখতে অধিক পরিশ্রম করতে হবে। ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ হবে। পুরাতন রোগ থেকে সাবধান থাকুন। বিশেষ করে চক্ষু ও অস্থি-সংক্রান্ত রোগ ও জ্বর থেকে। অরিষ্ট মুক্তি র জন্য রাহু মন্ত্র জপ ও নীল পদার্থের দান করুন।

ওঁ রাং রাহবে নমঃ

অন্তর্দর্শা :- রবি - বৃহস্পতি
(20/08/2028 - 08/06/2029)

আপনার সূর্যের মহাদশা ০২/০৮/২০২৬ প্রারম্ভ হয়েছিল। এই মহাদশায় বৃহস্পতির অন্তর্দর্শা ভোগ্যকাল ৯ মাস ১৮ দিন। ইহা ২০/০৮/২০২৮ আরম্ভ হয়ে ০৮/০৬/২০২৯ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা অধিপতি বৃহস্পতি ধন, সন্তান ও ধর্মের কারক।

এই দশায় আপনি সন্তান সুখ পাবেন। জীবনে সব সুখ প্রাপ্ত হবে। সমাজে সফলতা পাবেন ও আনন্দ স্ফুর্তিতেজ সময় কাটাবেন। মন্ত্রসিদ্ধি রুচি হতে পারে। আপনি পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য রত হতে পারেন। আপনার বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ধন প্রাপ্তি হতে পারে। সুদূর যাত্রা হওয়া সম্ভব। ভাগ্য আপনার সহায়তা করবে। দর্শনশাস্ত্র ও অন্যান্য সম্বন্ধিত বিষয়ে আপনার রুচি বৃদ্ধি হবে ও সমৃদ্ধি লাভ করবেন।

জীবনসংগী বা ব্যবসায়ের অংশীদারের আয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ে অংশীদারের উপার্জন বাড়বে। আপনার পিতার অর্থ ও সুবিধা প্রাপ্ত হবে। মাতা ভাই-বোনের বাকশক্তি কলা, নিকট ভ্রমণ ইত্যাদি থেকে লাভ হবে। তাদের কোনো লাভজনক অংশীদারী হতে পারে। আপনার সন্তানরা শিক্ষায় উন্নতি করবে। তারা উত্তম স্বাস্থ্য, অর্থ লাভ ও প্রসন্নচিত্ত থাকবে।

যদি আপনি চাকুরীরত হন তাহলে আপনার খরচ বাড়তে পারে। আপনার লাভদায়ক কর্মস্থান পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। আপনি রিটায়ারমেন্ট দ্বারা অর্থ লাভ করবেন। পরামর্শদাতাদের কার্যক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে এবং ধনলাভ হবে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের জন্য অচল সম্পত্তি ক্রয় করবেন।

পাচনতন্ত্রের খেয়াল রাখুন। হৃদ রোগ ও আলস্য থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অশুভত্ব দূর করতে ভগবান বিষণ্ণ আরাধনা করুন।

অন্তর্দর্শা :- রবি - শনি
(08/06/2029 - 21/05/2030)

বর্তমানে আপনার সূর্যের মহাদশা বিদ্যমান। এই মহাদশার ষষ্ঠ অন্তর্দর্শা শনি গৃহের, এই অন্তর্দর্শাবধি কাল ১১ মাস ১২ দিন। আপনার জন্ম ০৮/০৬/২০২৯ আরম্ভ ও ২১/০৫/২০৩০ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দর্শা অধিপতি শনি আয়ু সন্ন্যাস ও দার্শনিক স্বভাবের কারক গৃহ।

এই দশায় আপনি সুপ্রসিদ্ধ হবেন ও প্রভূত ধন সঞ্চয় করবেন। আপনার বিনিবেশ থেকে লাভ এবং প্রভূত সম্মান ও উচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। পরিবারে শিশু জন্মের সম্ভাবনা আছে। আপনি ধর্মে রুচি দেখাবেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গে কিছু মতভেদ হওয়া সম্ভব। উইল ও উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অপ্রত্যাশিত ধন লাভ করতে পারেন। আপনাকে অনেক কাজ সমাজ সেবার প্রয়োজনে করতে হবে। আপনি কিছু সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা সম্মুখীন হতে পারেন।

আপনার জীবনসংগীর বিনিবেশ থেকে লাভ হবে। আপনার পিতা তার প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করবেন। আপনার মাতার আধ্যাত্মিকতায় রুচি বৃদ্ধি হবে। আপনার ভাই-বোন সৌভাগ্যবান জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ

হবে। তাদের কিছু ভ্রমণ যোগ দেখা যায়। আপনার সন্তানদের শিক্ষা উত্তম হবে ও তাদের উপযুক্ত সময় বিবাহ হওয়া সম্ভব।

যদি আপনি চাকুরীরত হন তাহলে ধীরে-ধীরে উন্নতি প্রাপ্ত করবেন। পরামর্শদাতাদের আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ীদের লাভ যোগ দেখা যায়।

আপনার উত্তম স্বাস্থ্য লাভ হলেও কিছু সাধারণ অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারেন, মূলতঃ পা বা নিম্নাঙ্গে।

যদি আপনি কর্মরত হন তাহলে পদোন্নতি হবে। পরামর্শদাতাদের আয় বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়ীদের লাভ হবে। শুভত্ব বৃদ্ধির জন্য শনির মন্ত্র জপ করুন।

ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ

অন্তর্দশা :- রবি - বুধ (21/05/2030 - 28/03/2031)

আপনার সূর্যের মহাদশা ০২/০৮/২০২৬ আরম্ভ হয়ে ছিল। এই মহাদশায় সপ্তম অন্তর্দশা বুধের, যার দশা ভোগকাল ১০ মাস ৬ দিন হবে। ইহা ২১/০৫/২০৩০ আরম্ভ হয়ে ২৮/০৩/২০৩১ সমাপ্ত হবে। অন্তর্দশা অধিপতি বুধ বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, বাণী ইত্যাদির কারক।

এই সময়ে আপনার ফাটকাবাজী ও বিনিবেশে লাভ হবে। ললিত কলা ও কবিতায় রুচি হবে। আপনি পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত হওয়ার নিমন্ত্রণ লাভ করবেন। আপনার অধ্যায়ে ও বেদ বিদ্যায় রুচি বৃদ্ধি হতে পারে। সংসারে শিশু জন্ম হতে পারে। আপনি সুপ্রসিদ্ধ হবেন। আপনি খেলাধুলা, সাহিত্য, কলা ও মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহান্বিত হতে পারেন। আপনার চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি প্রখর হবে, যে কারনে আপনি নতুন ভাবনার প্রতিপাদন করায় সক্ষম হবেন। আপনার আকাঙ্ক্ষার পূর্তি হবে।

সন্তান সুখ লাভ হবে। জীবনসংগী বা ব্যবসায়ে অংশীদারের জীবন সুখী ও সুবিধাজনক হবে। আপনার পিতার যাত্রা যোগ দেখা যায়, তাঁর ধর্মে রুচি থাকবে। মাতার আয় বৃদ্ধি হবে। ভাই-বোনের ব্যবসায় লাভ হবে। সন্তান পরীক্ষায় সফলতা পাবে ও বিভিন্ন গতিবিধিতে অংশগ্রহণের উৎসাহ থাকবে।

ব্যবসায়ীদের কার্যক্ষেত্রের বিস্তার হবে। চাকুরিরত জাতকদের স্থান পরিবর্তন হতে পারে এবং তাদের খরচ বাড়বে। পরামর্শদাতাদের কার্যে কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্কের রোগ থেকে সাবধান থাকুন। সবুজ বস্ত্র, যেমন সবুজ বস্ত্র, সবুজ ডাল ইত্যাদির দান করুন।